



**भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार**

एनसीयूआई भवन, चौथी मंज़िल, 3, सीरी इंस्टीट्यूश्ल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष - :49536496, 49092978
Warehousing Development and Regulatory Authority
Government of India
NCUI Building, 4th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

फा.सं. डब्ल्यूडीआरए-एचआरजेडईआरडीईपी(पीपीएस)/1/2023-एचआर/3105

दिनांक: 21.02.2023

प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रमुख निजी सचिव के पद के लिए भर्ती

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), भारत सरकार, केंद्र/राज्य सरकारों/केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों में कार्यरत पात्र कर्मियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है: -

| क्रमांक | पद का नाम | रिक्तियों की संख्या |
|---------|--|---------------------|
| 1. | प्रमुख निजी सचिव [स्तर - 11 रुपये। 67,700 - 2,08,700 (7वां सीपीसी)] | 01 |

विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट www.wdra.gov.in पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन रोजगार समाचार में रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उप निदेशक (मानव संसाधन), भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शुद्धिपत्र आदि, यदि कोई होगा, को डब्ल्यूडीआरए की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

-sd-
(विनीता सोलोमन)
सहायक निदेशक (मानव संसाधन)



**भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार**

एनसीयूआई भवन, चौथी मंज़िल, 3, सीरी इंस्टीट्यूश्ल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
हौज़खास, नईदिल्ली - 110016, दूरभाष - :49536496, 49092978
Warehousing Development and Regulatory Authority
Government of India
NCUI Building, 4th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

फा.सं. डब्ल्यूडीआरए-एचआरजीरोडेप(डीडीएसआर)/1/2023-एचआर/3105

दिनांक: 21.02.2023

रिक्ति परिपत्र

विषय: भण्डारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) में प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) प्रमुख निजी सचिव पद, जैसा कि अनुबंध- I में दर्शाया गया है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार / केंद्र और राज्य पीएसयू / केंद्र और राज्य स्वायत्त / सांविधिक निकायों में कार्यरत पात्र कर्मियों में से भरने का प्रस्ताव है। डब्ल्यूडीआरए भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत 26 अक्टूबर, 2010 से स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। प्राधिकरण का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

2. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारियों की सेवा का वेतन और अन्य निबंधन और शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था वेतन II दिनांक 17 जून 2010 तथा समय-समय पर संशोधित में निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। चूंकि डब्ल्यूडीआरए में कोई आवासीय सुविधा नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी की स्वीकार्यता के अनुसार एचआरए स्वीकार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को शुरू में तीन साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसे समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की न्यूनतम चार वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
4. केवल ऐसी अनुशंसाओं पर विचार किया जाएगा, जिनके साथ अनुलग्नक-II में अपेक्षित व्यक्तिगत डेटा संलग्न है। अधिकारी/कर्मचारी, जो एक बार पद (पदों) के लिए स्वेच्छा से नाम देंगे, को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जारी....

5. यह अनुरोध किया जाता है कि आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के बीच रिक्ति परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध II) में पिछले पांच वर्षों के अधिकारी/कर्मचारी की सीआर की सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन किया जाए, जिसे उनके चयन की स्थिति में, रोजगार समाचार में रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद या सीआर डोजियर और सतर्कता मंजूरी के बिना या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अग्रेषित करते समय, यह भी सत्यापित और प्रमाणित किया जाए कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं की गई है। उसके खिलाफ लंबित या विचाराधीन। (अनुबंध III)

6. निर्धारित आवेदन पत्र, विस्तृत नियम और शर्तें आदि डब्ल्यूडीआरए वेबसाइट: www.wdra.gov.in पर उपलब्ध हैं। रोजगार समाचार में इस रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में इस कार्यालय में भेजे जा सकते हैं। समाचार पत्रों/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की एक प्रति संलग्न है।

संलग्नक: 07 पृष्ठ

-sd-
(विनीता सोलोमन)
सहायक निदेशक (मानव संसाधन)

सेवा

1. सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) को अपने वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए
3. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नोटिस बोर्ड
4. सीडब्ल्यूसी/एफसीआई/एसडब्ल्यूसी/एनसीडीसी/एनसीयूआई
5. आईटी विभाग, डब्ल्यूडीआरए को डब्ल्यूडीआरए की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
6. गार्ड फाइल

अनुलग्नक- I**प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस)**

| | | |
|----|--|---|
| 1. | पद का नाम और पदनाम (पदों की संख्या) | प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस)- 01 पद |
| 2. | पद का वेतनमान | [स्तर 11 (67700-208700 रुपये) (सातवां सीपीसी)] |
| 3. | पद का ग्रेड/श्रेणी | समूह क |
| 4. | पोस्ट का प्रकार | प्रशासन और वित्त |
| 5. | पद की आवश्यक और न्यूनतम योग्यता | (i) केंद्र और राज्य सरकारों या केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या वैधानिक निकायों के अधिकारी जो समान पद धारण करते हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (रु.53,100-1,67,800/- रुपये) में पांच साल की नियमित सेवा के साथ केंद्रीय और राज्य सरकारों या केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या वैधानिक निकायों के अधिकारी; और (iii) कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता आवश्यक है और न्यूनतम अस्सी शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी गति और अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टाइपिंग गति या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए। |
| 6. | पद के कर्तव्य और जिम्मेदारियां (कार्य विवरण) | निजी सचिव अधिकारी को पत्र-व्यवहार डाक से भेजने, कागजात दाखिल करने, मिलने का समय तय करने, बैठकों की व्यवस्था करने और जानकारी एकत्र करने के द्वारा नियमित प्रकृति के काम से मुक्त रखेंगे ताकि अधिकारी को अपने सौंपे गए काम के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अधिक समय मिल सके। वह उसे सौंपे गए गोपनीय और गुप्त कागजातों की गोपनीयता बनाए रखेगा/रखेगी। वह अपने दिन-प्रतिदिन की आधिकारिक बातचीत में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। |

नियम एवं शर्तें/Terms & Conditions

प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन एवं सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में संख्या 6/8/2009-स्था।) वेतन II), दिनांक 17 जून, 2010 और समय-समय पर जारी अन्य संबंधित आदेश अन्य निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

1. चयनित उम्मीदवार को शुरू में तीन साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसे समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की न्यूनतम चार वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
2. केवल ऐसी अनुशंसाओं पर विचार किया जाएगा, जिनके साथ अनुलग्नक-II में अपेक्षित व्यक्तिगत डेटा संलग्न किया गया है। वे अधिकारी, जो एक बार इस पद के लिए स्वेच्छा से नाम देंगे, उन्हें बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. इच्छुक उम्मीदवार रोजगार समाचार में इस रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पिछले पांच वर्षों के एपीएआर / एसीआर की सत्यापित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा **अनुलग्नक - II** में उचित माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद या सीआर डोजियर के बिना प्राप्त या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों को अग्रेषित करते समय यह भी सत्यापित और प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिया गया विवरण सही है और उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है। अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए। यह भी पुष्टि की जाए कि पिछले दस वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ी / छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।(अनुलग्नक-III)

बायो-डेटा प्रोफार्मा

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1. नाम और पता (मोटे अक्षरों में) | |
| 2. जन्म तिथि | |
| 3.(i) सेवा में प्रवेश की तिथि | |
| (ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि | |
| 4. शैक्षिक योग्यता | |
| 5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं पूरी हैं।)यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना गया है, तो उसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख (करे) | |
| आवश्यक योग्यता/अनुभव जैसा कि विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित है। | अधिकारी/कर्मचारी के पास योग्यता/अनुभव |
| आवश्यक | आवश्यक |
| क(योग्यता) | क(योग्यता) |
| ख (अनुभव) | ख (अनुभव) |
| वांछित | वांछित |
| क(योग्यता) | क(योग्यता) |
| ख(अनुभव) | ख(अनुभव) |
| 5.1 नोट :रोजगार समाचार में परिपत्र और विज्ञापन जारी करते समय कार्यालय द्वारा आरआर में उल्लिखित आवश्यक और वांछनीय योग्यताओं को इंगित करने के लिए इस कॉलम को बढ़ाया जाना चाहिए। | |
| 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर योग्यता के मामले में उम्मीदवार द्वारा वैकल्पिक / मुख्य विषयों और सहायक विषयों का उल्लेख किया जा सकता है। | |
| 6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा ऊपर दी गई प्रविष्टियों को देखते हुए, आप पद के लिए आवश्यक आवश्यक योग्यताएं और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं। | |
| 6.1 नोट :उधार लेने वाले विभागों को आवेदन किए गए पद के संदर्भ में उम्मीदवार के पास प्रासंगिक आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव) जैसा कि बायोडेटा में दर्शाया गया है (की पुष्टि करने के लिए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां / विचार प्रदान करना है। | |

7. रोजगार का विवरण, कालानुक्रमिक क्रम में। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।

| कार्यालय/संस्था | नियमित आधार पर धारित पद | से | तक | *नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान। | कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तार से) आवेदित पद के लिए आवश्यक अनुभव को उल्लिखित करें |
|-----------------|-------------------------|----|----|--|--|
| | | | | | |

***महत्वपूर्ण :** एसीपी/एमएसीपी के तहत दिए गए पे-बैंड और ग्रेड पे अधिकारी/कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत हैं और इसलिए, इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। **केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान का उल्लेख किया जाए।** वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी का विवरण जहां उम्मीदवार द्वारा इस तरह के लाभ प्राप्त किए गए हैं, उन्हें नीचे दर्शाया जा सकता है:

| कार्यालय/संस्था | एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन | से | तक |
|-----------------|--|----|----|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्ध-स्थायी या स्थायी | | | |
| 9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर है, तो कृपया बताएं - | | | |
| | | | |
| क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि | ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि | ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आवेदक संबंधित है | घ) मूल रूप में मूल रूप से धारित पद का नाम और पद का वेतन |
| | | | |

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| | | | |
| <p>9.1 नोट :पहले से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी के मामले में, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किए जाए।</p> <p>9.2 नोट :उपरोक्त कॉलम 9 (ग (और) घ (के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहां कोई व्यक्ति संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, लेकिन अभी भी अपने मूल संवर्ग/संगठन में धारणाधिकार बनाए हुए है।</p> | | | |
| <p>10. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर धारित कोई पद, अंतिम प्रतिनियुक्ति से वापसी की तिथि और अन्य विवरण।</p> | | | |
| <p>11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि क्या आप किसके तहत काम कर रहे हैं)संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम बताएं(क (केंद्र सरकार ख (राज्य सरकार ग (स्वायत्त संगठन घ (सरकारी उपक्रम ङ (विश्वविद्यालय च(अन्य</p> | | | |
| <p>12. कृपया बताएं कि क्या आप एक ही विभाग में कार्यरत हैं और फीडर ग्रेड या फीडर से फीडर ग्रेड में हैं</p> | | | |
| <p>13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो वह तिथि दें जिससे पुनरीक्षण हुआ और पूर्व-संशोधित वेतनमान का भी उल्लेख करें</p> | | | |
| <p>14. प्रति माह कुल परिलब्धियां वर्तमान में आहरित</p> | | | |
| <p>वेतनमान और वेतन वृद्धि की दर के साथ मूल वेतन</p> | <p>महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि) ब्रेक-अप विवरण के साथ(</p> | <p>कुल परिलब्धियां</p> | |
| | | | |
| <p>15. क (अतिरिक्त जानकारी) :यदि कोई हो, उस पद के लिए प्रासंगिक, जिसके लिए आपने अपनी उपयुक्तता के समर्थन में आवेदन किया है। (यह अन्य बातों के अलावा)i) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और)iii) रिक्ति परिपत्र /विज्ञापन(में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें। (नोट :यदि स्थान अपर्याप्त हो तो एक अलग शीट संलग्न करें)</p> | | | |

| | |
|---|--|
| | |
| <p>15. ख (उपलब्धियां):</p> <p>उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसके संबंध में जानकारी दें;</p> <p>(i) शोध प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा (iii) पेशेवर निकायों/संस्थानों/समितियों के साथ संबद्धता और; (iv) पेटेंट स्वयं के नाम पर पंजीकृत या संगठन के लिए हासिल किया गया (v) आधिकारिक मान्यता से संबंधित कोई भी शोध/नवोन्मेषी उपाय (vi) कोई अन्य जानकारी।</p> <p>(नोट :यदि स्थान अपर्याप्त हो तो एक अलग शीट संलग्न करें)</p> | |
| 16. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है | |

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यान से देखा है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक योग्यता/कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित बायो डाटा में दी गई जानकारी का भी चयन समिति द्वारा समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। पद के लिए चयन के संबंध में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी/विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और मेरे चयन पर प्रभाव डालने वाले किसी भी तथ्य को छुपाया/रोका नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता

.....

मोबाइल न:

ईमेल:

दिनांक

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचना/विवरण अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। उसके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है। चयन होने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

- i) श्री/सुश्री.....के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचारित नहीं है।
- ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- iii) उनका/उनकी सीआर डोजियर मूल रूप से संलग्न है पिछले 5 वर्षों के एसीआर की सरकार के अवर सचिव अथवा ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न है।
- iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ी/छोटी नहीं लगाई गई है या पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

प्रतिहस्ताक्षरित
(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी मुहर सहित)